



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151]

No. 151]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2006/माघ 28, 1927

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2006/MAGHA 28, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2006

सं. 13/2006-सीमा शुल्क (नै.टै.)

का.आ. 223(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), जवाहर कसटम हाऊस, न्हावा शेवा, जिला रायगढ़ महाराष्ट्र को अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुम्बई जोनल यूनिट 3रा/4था तल, होटल वालडोर्फ बिल्डिंग, 16, आर्थर बन्डर रोड, कोलाबा, मुम्बई-400006 द्वारा फा. सं. डी आर आई/एमजेडयू/सी जांच-15/04-05 के तहत मैसर्स करण इन्टरप्राइजेज, मोती बाग, शैड एम, प्लॉट-21, नटराज कम्पाउन्ड, आर.के. स्टुडियो के निकट, चेम्बुर, मुम्बई अन्य को जारी कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ सीमा शुल्क (आयात), बलार्ड एस्टेट, मुम्बई और सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), एयरकॉर्पो काम्प्लेक्स, सहार, मुम्बई के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/18/2005-सी.शु.-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2006

No. 13/2006-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 223(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Customs (Imports), Jawahar Custom House, Nhava Sheva, District Raigad, Maharashtra to act as Commissioner of Customs (Imports), Ballard Estate, Mumbai and Commissioner of Customs (Imports), Air Cargo Complex, Sahar, Mumbai for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s Karan Enterprises, Moti Baug Shed M. Plot 21, Natraj Compound, Near R.K. Studio, Chembur, Mumbai and Others, issued vide F. No. DRI/MZU/C/INV-15/04-05, dated the 29th July, 2005, by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai Zonal Unit, 3rd/4th Floor, Hotel Waldorf Building, 16, Arthur Bunder Road, Colaba, Mumbai-400006.

[F. No. 437/18/2005-CUS. IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2006

सं. 14/2006-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 224(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस, मुम्बई को अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद जोनल यूनिट, “रुपेन” बंगलो, एनआर जैन मर्चेन्ट सोसाइटी, बीएच. बादशाह डेयरी, पंच-तीर्थ क्रास रोड, पालदी, अहमदाबाद (गुजरात) द्वारा फा. सं. डी आर आई एजेड यू/जांच-12/2003, दिनांक 28 अक्टूबर, 2004 के तहत धनराज इन्टरनेशनल तारसाडी मंगरोल, सूरत (गुजरात) और अन्य के अलावा मैसर्स स्पेक्ट्रम फैब्रिक्स, सर्वेक्षण सं. 775, पैकी प्लॉट सं. 243-244 को जारी कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ आयुक्त, सीमा शुल्क, मुम्बई समुद्री पत्तन के रूप में नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/23/2005-सी.शु.-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th February, 2006

No. 14/2006-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 224(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Customs (Imports), Jawaharlal Nehru Custom House, Mumbai to act as Commissioner of Customs, Mumbai Sea Port for the purposes of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. Spectrum Fabrics, Survey No. 775 Paiki Plot No. 243-244, Beside Dhanraj International Tarsadi Mangrol, Surat (Gujarat) and Others, issued vide F. No. DRI AZU/INV-12/2003, dated the 28th October, 2004, by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, ‘Ahmedabad Zonal Unit, “Rupen” Bungalow, Nr. Jain Merchant Society, Bh. Badhshah Dairy, Panch-Tirth Cross Road, Paldi, Ahmedabad (Gujarat).

[F. No. 437/23/2005-CUS. IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2006

सं. 15/2006-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 225(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो, न्यू कस्टम हाऊस, नई दिल्ली को अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, 7वां तल, आई.पी. भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 द्वारा फा. सं. 50 डी/111/2004-सी. 1, दिनांक 28 अक्टूबर, 2005 के तहत मैसर्स आर्यन इलेक्ट्रॉनिक्स, 302-305, 6, डी एल एफ औद्योगिक क्षेत्र, मोती नगर, नई दिल्ली और मैसर्स एस.टी. इन्टरप्राइजेज, 228, यू जी एफ, डी डी ए प्लाट्स, न्यू राजिन्द्र नगर, नई दिल्ली और अन्य को जारी कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ सीमा शुल्क आयुक्त, इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, तुंगलकाबाद, सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), एयर कार्गो काम्प्लेक्स, सहार, मुम्बई के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/32/2005-सी.शु.-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th February, 2006

No. 15/2006-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 225(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Customs (Imports), Indira Gandhi International Air Cargo, New Custom House, New Delhi to act as Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad, Commissioner of Customs (Import), New Custom House, Mumbai and Commissioner of Customs (Import), Air Cargo Complex, Sahar, Mumbai for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s Aryan Electronics, 302-305, 6 DLF Industrial Area, Moti Nagar, New Delhi and M/s. S.T. Enterprises, 228, UGF, DDA Plots, New Rajinder Nagar, New Delhi and Others, issued vide F. No. 50D/111/2004-C.I., dated the 28th October, 2005, by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, 7th Floor, I.P. Bhavan, I.P. Estate, New Delhi.

[F. No. 437/32/2005-CUS. IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.